



सराहनीय कार्य जनपद फिरोजाबाद दिनांक 21.11.2022

थाना जसराना पुलिस टीम द्वारा डीजल चोरी करते हुये 03 शातिर अभियुक्तों को 50 लीटर डीजल, एक ट्रैक्टर महिंद्रा डीआई व एक ट्रक के साथ किया गिरफ्तार ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा जनपद में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में एवं क्षेत्राधिकारी जसराना के कुशल नेतृत्व में थाना जसराना पुलिस द्वारा दिनांक 20.11.2022 को शाम 06.30 बजे मुखबिर की सूचना पर डीजल चोरी कर बेचते हुये तीन अभियुक्तों 1. सतीश, 2. धर्मन्द्र, 3. फिरोज अहमद उर्फ अशफाक को पटीकरा नहर के पुल के पास बजरंग ढाबा से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना जसराना पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण- अभियुक्त सतीश बी.एफ.सी कम्पनी गुडगाँव हरियाणा में ट्रक चालक है जो उक्त ट्रक से डीजल निकालकर सस्ते दामों में बेचता है। कल दिनांक 20.11.2022 को शाम 06.30 बजे इसी प्रकार अभियुक्त सतीश ट्रक से डीजल निकालकर ट्यूब पाइप के माध्यम से अभियुक्त धर्मन्द्र उपरोक्त के ट्रैक्टर महिंद्रा डीआई में व दूसरे पाइप से अभियुक्त फिरोज अहमद उर्फ अशफाक उपरोक्त के एक बड़े जरी केन में डीजल भर रहा था। मौके से डीजल से भरी हुयी 50 लीटर केन व 5750 रुपये, उपरोक्त महिंद्रा ट्रैक्टर नं0 व ट्रक नं0 HR55 AB 3678 उपरोक्त को बरामद किया गया।

नाम पता गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण-

1. सतीश पुत्र लाइक सिंह निवासी नगला मिलिक थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद (ट्रक चालक)
2. धर्मन्द्र पुत्र वेद सिंह निवासी विठवारा थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद(ट्रैक्टर चालक खरीदार)
3. फिरोज अहमद उर्फ अशफाक पुत्र इसाक अहमद निवासी विठवारा थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद(जरीकेन लिये खरीदार)

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 643/22 धारा 379/411/413 आईपीसी थाना जसराना फिरोजाबाद।

बरामदगी का विवरण-

1. एक केन डीजल 50 लीटर।
2. एक ट्रैक्टर महिंद्रा डीआई।
3. ट्रक नं0 HR55 AB 3678।
4. खरीदे हुये डीजल के 5750 रुपये।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. निरीक्षक अपराध सारदेव सिंह थाना जसराना फिरोजाबाद।
2. उ0नि0 मोहर सिंह थाना जसराना फिरोजाबाद।
3. का0 1243 मो0 रियाज थाना जसराना फिरोजाबाद।
4. का0 683 अमित गौड थाना जसराना फिरोजाबाद।